



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 7 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

निर्वाचन अनुभाग

संख्या 1273/61-2020

लखनऊ, 07 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार अपने कार्यकाल की समाप्ति पर 06 मई, 2020 को अवकाश ग्रहण कर चुके उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों के स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन हो गये हैं।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 74 के अनुसार उक्त निर्वाचनों में विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं।

तालिका

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | सदस्य का नाम |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1—लखनऊ खण्ड स्नातक | इंजी० अरुण कुमार सिंह |
| 2—वाराणसी खण्ड स्नातक | श्री आशुतोष सिन्हा |
| 3—इलाहाबाद—झांसी खण्ड स्नातक | डॉ० मान सिंह यादव |
| 4—आगरा खण्ड स्नातक | डा० मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' |
| 5—मेरठ खण्ड स्नातक | श्री दिनेश कुमार गोयल |
| 6—बरेली—मुरादाबाद खण्ड शिक्षक | डा० हरी सिंह दिल्ली |
| 7—लखनऊ खण्ड शिक्षक | श्री उमेश द्विवेदी |
| 8—गोरखपुर—फैजाबाद खण्ड शिक्षक | श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी |
| 9—वाराणसी खण्ड शिक्षक | श्री लाल बिहारी यादव |

| 1 | 2 |
|---------------------|------------------------------------|
| 10-मेरठ खण्ड शिक्षक | श्री श्रीचन्द शर्मा |
| 11-आगरा खण्ड शिक्षक | डॉ० आकाश अग्रवाल (वित्तविहीन वाले) |

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1273/LXI-2020, dated December 07, 2020:

No. 1273/LXI-2020

Dated Lucknow, December 07, 2020

WHEREAS, Election have been held in pursuance of the notification issued under section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for the purposes of filling the seats of member of the Uttar Pradesh Legislative Council who retired on May 06, 2020 on the expiration of their term.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 74 of the said Act the names of the following members elected by the council constituencies at the said Elections are hereby notified for general information.

TABLE

| Name of Constituency | Name of Member |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Lucknow Division Graduates | Er. Awanish Kumar Singh |
| 2. Varanasi Division Graduates | Sri Ashutosh Sinha |
| 3. Allahabad-Jhansi Division Graduates | Dr. Man Singh Yadav |
| 4. Agra Division Graduates | Dr. Manvendra Pratap Singh 'Guru Ji' |
| 5. Meerut Division Graduates | Sri Dinesh Kumar Goel |
| 6. Bareilly-Moradabad Division Teachers | Dr. Hari Singh Dhillon |
| 7. Lucknow Division Teachers | Sri Umesh Dwivedi |
| 8. Gorakhpur-Faizabad Division Teachers | Sri Dhruv Kumar Tripathi |
| 9. Varanasi Division Teachers | Sri Lal Biharee Yadav |
| 10. Meerut Division Teachers | Sri Shrichand Sharma |
| 11. Agra Division Teachers | Dr. Aakash Agarwal (vittavihin wale) |

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 397 राजपत्र-2020-(902)-588 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 78 सा० निर्वाचन-2020-(903)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।